



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 434439

आवेदन सं. / Application No. 202241043215

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 28/07/2022

पेटेंटी / Patentee INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT Madras)

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) 1. Arun Kumar Thittai 2. Anudeep Vayyeti

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **HYBRID HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND IMAGING SYSTEM AND A METHOD OF PERFORMING HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND IMAGING** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जुलाई 2022 के अट्टाईसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **HYBRID HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND IMAGING SYSTEM AND A METHOD OF PERFORMING HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND IMAGING** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 28th day of July 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



(Signature)
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

अनुदान की तारीख / Date of Grant : 13/06/2023

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जुलाई 2024 के अट्टाईसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 28th day of July 2024 and on the same day in every year thereafter.